

प्रेस नोट दिनांक 23.04.2021

इटावा पुलिस द्वारा चोरी व लूट के अभियोगों में वांछित अभियुक्त को अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा चोरी व लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बकेवर पुलिस द्वारा टीम गठित कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना बकेवर से चोरी व लूट का वांछित अपराधी कस्बा बकेवर से चकरनगर की तरफ जाने की फिराक में है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा लखना चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर चैकिंग शुरू की गयी तभी एक संदिग्ध व्यक्ति जोकि चकरनगर की ओर जा रहा था, पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर भागने का प्रयास करने लगा । पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर व्यक्ति को घेरकर हिरासत में लिया गया ।

व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध असलहा बरामद हुआ । जिसकी सम्बन्ध में थाना बकेवर पर मु०अ०स० 182/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सोनू पाल पुत्र अखिलेश पाल उम्र 18 वर्ष निवासी काशीराम कालोनी थाना भरथना इटावा बरामदगी

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 557/20 धारा 380/411 भादवि थाना बकेवर इटावा

2. मु०अ०स० 590/20 धारा 398/402/420/120 बी भादवि थाना बकेवर इटावा

गिरफ्तारी की टीम

प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह, उ० नि० चिन्तन कौशिक, उ०नि० बृजनन्दन सिंह, का० ललित चौधरी, का० रमन कुमार, का० दर्शन सिंह ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा